

# Mic

## Chapter 3

Hindi Interlinear

Reference: Hindi Easy-to-Read Version

לָכֶם	הֲלוֹא	יִשְׂרָאֵל	בֵּית	וּקְצִינִי	יַעֲקֹב	רְאִשֵׁי	נָא	שְׁמַעוּ-	וְאָמַר	1
तुम	क्या-नहीं	इस्राएल-के	घराने	और-शासकी	याकूब-के	प्रमुखी	कृपया	सुनी-	और-मैं-ने-कहा	
	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3478</a>		<a href="#">H7101</a>	<a href="#">H3290</a>		<a href="#">H4994</a>	<a href="#">H8085</a>	<a href="#">H0559</a>	
							הַמִּשְׁפָּט:	אֶת-	לְרַעַת	
							न्याय	को-	जानना-चाहिए	
							<a href="#">H4941</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H3045</a>	

फिर मैंने कहा, "हे याकूब के मुखियाओं, अब सुनो। हे इस्राएल के प्रजा के शासकों, अब सुनो। तुमको जानना चाहिये कि न्याय क्या होता है।

מֵעַלֵיהֶם	עֹרֶם	זָוְלִי	(רַע) בּוֹרָאֵי	וְאֶהְיֶה	טוֹב	שְׂנְאִי	2
उन-पर-से	उन-की-खाल	छीनने-वालो	बुराई [बुराई]	और-प्रम-करने-वालो	भलाई-से	घृणा-करने-वालो	
	<a href="#">H5785</a>	<a href="#">H1497</a>		<a href="#">H0157</a>		<a href="#">H8130</a>	
					עֲצֻמוֹתָם:	מֵעַל	וְשֹׂאֵרָם
					उन-की-हड्डियों	ऊपर-से	और-उन-का-मांस
					<a href="#">H6106</a>	<a href="#">H7607</a>	

किन्तु तुमको नेकी से घृणा है और तुम लोगों की खाल तक उतार लेते हो। तुम लोगों की हड्डियों से मांस नोंच लेते हो!

עֲצֻמוֹתֵיהֶם	וְאֶת-	הַפְּשִׁיטוּ	מֵעַלֵיהֶם	וְעֹרֶם	עִמִּי	שֹׂאֵר	אֶבְרָהָם	וְאִשְׁרָה	3
उन-की-हड्डियाँ	और-को-	उतारी	उन-पर-से	और-उन-की-खाल	मेरी-प्रजा-का	मांस	खाया	और-जिन्होंने	
<a href="#">H6106</a>	<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H6584</a>		<a href="#">H5785</a>		<a href="#">H7607</a>	<a href="#">H0398</a>		
			קִלְחָת:	בְּתוּךָ	וּכְבָשֶׁת	בְּחִיר	כְּאִשְׁרָה	וּפְרָשׁוֹ	פְּצָחוֹ
			देगची	बीच-में	और-मांस-की-तरह	हांडी-में	जैसे	और-फैलाया	तोड़ी
			<a href="#">H7037</a>	<a href="#">H8432</a>	<a href="#">H1320</a>		<a href="#">H6566</a>	<a href="#">H6476</a>	

तुम मेरे लोगों को नष्ट कर रहे हो! तुम उनकी खाल तक उनसे उतार रहे हो और उनकी हड्डियाँ तोड़ रहे हो। तुम उनकी हड्डियाँ ऐसे तोड़ रहे हो जैसे हांडी में मांस चढ़ाने के लिये।

בְּעֵת	מֵהֶם	פָּנִיו	וְיִסְתָּר	אוֹתָם	יַעֲנֶה	וְלֹא	יְהוּנָה	אֶל-	יִזְעַקוּ	אִז	4
समय-में	उन-से	अपना-मुख	और-छिपाएगा	उन्हें	उत्तर-देगा	और-नहीं	यहोवा	को-	वे-चिल्लाएंगे	तब	
<a href="#">H6256</a>	<a href="#">H1992</a>	<a href="#">H6440</a>	<a href="#">H5641</a>	<a href="#">H0853</a>		<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0413</a>	<a href="#">H2199</a>		
					פ	מֵעַלְלֵיהֶם:	הָרַעוּ	כְּאִשְׁרָה	הַחַיָּא		
					प	अपने-कार्य	उन्होंने-बुरा-किया	जैसा	उस		
						<a href="#">H4611</a>		<a href="#">H1931</a>			

तुम यहोवा से विनती करोगे किन्तु वह तुम्हें उत्तर नहीं देगा। नहीं, यहोवा अपना मुख तुमसे छुपायेगा। क्यों क्योंकि तुमने बुरे कर्म किये हैं।"

בְּשֵׁנֵיהֶם	הַנְּשָׁכִים	עִמִּי	אֶת-	הַמְּתַעִים	הַנְּבִיאִים	עַל-	יְהוּנָה	אָמַר	כֹּה	5
अपने-दांतों-से	काटने-वालों	मेरी-प्रजा	को-	भटकाने-वालों	भविष्यवक्ताओं	पर-	यहोवा	कहता-है	ऐसा	
<a href="#">H8127</a>			<a href="#">H0853</a>	<a href="#">H8582</a>	<a href="#">H5030</a>		<a href="#">H3068</a>	<a href="#">H0559</a>	<a href="#">H3541</a>	

מִלְחָמָה:	עָלִיו	וְקָדְשׁוֹ	פִּיחָם	עַל-	יָתֵן	לֹא-	וְאִשְׁרָה	שְׁלוֹם	וְקָרָא	
युद्ध	उस-के-विरुद्ध	और-घोषणा-करते-हैं	उन-के-मुंह	पर-	देता	नहीं-	और-जो	शांति	और-पुकारते-हैं	
<a href="#">H4421</a>		<a href="#">H6942</a>	<a href="#">H6310</a>		<a href="#">H5414</a>	<a href="#">H3808</a>	<a href="#">H7965</a>	<a href="#">H7121</a>		

झूठे नबी यहोवा के लोगों को जीवन की उलटी रीति सीखाते हैं। यहोवा उन झूठे नबियों के विषय में यह कहता है: "यदि लोग इन नबियों को खाने को देते हैं, तो वे चिल्लाकर कहते हैं, तुम्हारे संग शान्ति हो, किन्तु यदि लोग उन्हें खाने को नहीं देते तो वे सेना को उनके विरुद्ध युद्ध करने को प्रेरित करते हैं।



यरूशलेम के न्यायाधीश उनके पक्ष में जो न्यायालय में जीतेगा, निर्णय देने के लिए घूस लिया करते हैं। यरूशलेम के याजकों को धन देना पड़ता है, इसके पहले कि वे लोगों को सीख दें। लोगों को नबियों को धन देना पड़ता है। इसके पहले कि वे भविष्य में झाँकें और फिर भी वे मुखिया सोचते हैं कि उन पर कोई दण्ड नहीं पड़ सकता। वे सोचा करते हैं, यहोवा उनको बचा लेगा और वे कहते हैं, “यहोवा हमारे बीच रहता है। इसलिए हमारे साथ कोई बुरी बात घट नहीं सकती है।”

12  
 לְכֵן בְּגִלְלָתְכֶם צִיּוֹן שָׁרְהָ תִּחְרָשׁ וִירוּשָׁלַם עֵינַי תִּהְיֶה וְתָרָוּ אֶת הַבַּיִת  
 भवन-का और-पहाड़ होगी खंडहरों-का-ढेर और-यरूशलेम जोता-जाएगा खेत सिव्योन तुम्हारे-कारण इसलिए  
[H2022](#) [H1961](#) [H5856](#) [H3389](#) [H6726](#) [H1558](#)

לְבָמוֹת יַעַר : פ  
 ऊँचे-स्थानों-के-लिए प जंगल  
[H1116](#)

हे मुखियाओं, तुम्हारे ही कारण सिव्योन का विनाश होगा। यह किसी जुते हुए खेत सा सपाट हो जायेगा। यरूशलेम पत्थरों का टीला बन जाएगा और मन्दिर का पर्वत झाड़ियों से ढका हुआ एक सूनी पहाड़ी होगा।